

Lost Found person

बिछुड़े हुये लापता व्यक्तियों को उनके परिवारों से मिलाने का एक सामाजिक प्रयास

Admin. : RAHUL SHARMA

Mobile : 9782279219

E-mail : contact@lostfoundperson.com

Website: www.lostfoundperson.com

क्रमांक : Lostfound/ 2018/ 144

दिनांक : 22 Jan. 2018

प्रेस – नोट

तीन वर्ष बाद आपस में मिलेंगे भाई- बहन

जयपुर। उन तीन मासूम भाई- बहनों को तो अपना कसूर भी मालूम नहीं है और ना ही उन्हें अपने परिवार के बारे में मालूम है। वे मासूम तो ये भी नहीं जानते कि बचपन में वे अपने परिवार से बिछुड़कर भटके हुए हैं या फिर माता- पिता ने ही उन्हें लावारिसों के तरह भटकने के लिए छोड़ दिया है। पहले तो नियति ने उनके साथ यह खेल खेला और बाद में ये तीनों मासूम सिस्टम और नियति के शिकार होकर आपस में भी अलग- अलग होकर बिछुड़ गये।

यह कहानी है राजस्थान की कोटा पुलिस को सितम्बर, 2013 में लावारिस भटकते हुए मिले तीन भाई- बहनों की, जिनकी उस समय उम्र क्रमशः लगभग 5, 4 व 3 वर्ष रही होगी। इनके परिवारों से मिलाने की कोशिश करते हुए इन तीनों को अलग- अलग जिलों के एक से दूसरे शिशुगृहों में स्थानान्तरित किया जाता रहा और स्थानान्तरण की इस कड़ी में नवम्बर, 2014 में ये तीनों भाई- बहन आपस में भी बिछुड़ गये, जो आज तक भी एक दूसरे से नहीं मिल पाये। नवम्बर, 2014 में दोनों भाइयों को अलग शिशुगृह में और बहन को अलग शिशुगृह में स्थानान्तरित कर दिया गया।

हालांकि कई कोशिशों के बावजूद इनके परिवार की तो तलाश अभी तक नहीं हो सकी, लेकिन बिछुड़े हुए लावारिस व्यक्तियों को उनके परिवारों से मिलाने के लिए प्रयासरत लॉस्ट फाउण्ड पर्सन अभियान द्वारा अलवर के आरती बालिका गृह, जयपुर के एस.ओ.एस. बालग्राम एवं अलवर व जयपुर जिलों की बाल कल्याण समितियों के सहयोग से अब 3 वर्ष से अधिक समय बाद इन तीनों भाई- बहनों को आपस में जरूर मिला दिया जायेगा।

सितम्बर, 2013 में राजस्थान की कोटा पुलिस को तीन भाई-बहन लावारिस भटकते हुए मिले थे। इन्हें तत्समय बाल कल्याण समिति, कोटा के आदेश पर जिला अलवर स्थानान्तरित किया गया, जहाँ से बाल कल्याण समिति, अलवर के आदेश पर इन्हें नवम्बर, 2014 में जयपुर स्थानान्तरित किया गया, परन्तु जयपुर के शिशुगृह में बालिकाओं को रखने की व्यवस्था ना होने के कारण दोनों भाई जयपुर रह गये और बहन को वापस

Address: "Jai Maa", S-2, Swapnlok Residency-II, 122-123, Ashok Nagar, Niwaru Road, Jhotwara, Jaipur (Rajasthan) - 302012

